Euro Asia Exports Limited

Date: 14th Nov., 2024

To,
BSE Limited,
Listing Manager,
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building, P.J. Towers,
Dalal Street, fort,
Mumbai-400001

Scrip Code: -530929

<u>Subject: Newspaper Advertisement of Un-Audited Financial Results for the quarter ended September 30, 2024.</u>

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisement of un- audited Financial Results for the quarter ended September 30th, 2024 published in Business Standard(English & Hindi) on November 14, 2024.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

For and on behalf of **Euro Asia Exports Limited**

Priyanka Digitally signed by Priyanka Sharma Date: 2024.11.14 13:43:25 +05'30'

Priyanka Sharma Company Secretary

Encl: As above

(As per Appendix IV read with rule 8(1) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002)
Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of HDFC Bank Ltd., under the
Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002, and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Securit Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a Demand Notice Dated 31-October-2023 calling upon the borrower(s) M/S. SHIV SHAKTI TRADERS (Borrower) Through its proprietor SH ATUL MITTAL (Proprietor /Mortgagor(s) /Guarantors(s) , to repay the amount mentioned in the Demand Notice being Rs.23,31,942.76 (Rupees Twenty Three Lakh Thirty One Thousan line Hundred Forty Two and Seventy Six Paisa Only) as on 31-10-2023 thereon w.e.f 01 11-2023 together with future interest and charges thereon within 60 days of the receipt of the said notice. The Borrower(s) / Guarantor(s)/Mortgagors(s), having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s)/Guarantor(s)/Mortgagors(s) and the public in general, that the indersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of power conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules, on this 12 day of November, 2024 at Saharanpur Uttar Pradesh

The Borrower(s) / Guarantor(s) / Mortgagors(s), in particular, and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of HDFC Bank Ltd., for an amount of Rs.23,31,942.76 (Rupees Twenty Three Lakh Thirty One Thousand Nine Hundred Forty Two and Seventy Six Paisa Only) as on dated 31.10.2023 and from 01.11.2023 is due and payable by you as aforesaid together with expenses and charges etc. The Borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the act, in respect of time available, to redeem the secured assets

S. No	Description of the Property	Date of
		Possession
1.	Residential Cum Commercial Property Bearing No. No. 8/1857 Moh. Veer Nagar Jain Bagh, Saharanpur Uttar pradesh 247001 admeasuring 70 Sq Yards or 58.52 Sq Meters duly registered at the office of Sub-Registrar, SRE, in Bahi No. 1 Jild no.4612 Page no.805/820 Doc No. 1614 on dated 08.03.2006. Boundary: East: House of Harnam Singh, WEST: House of Sh Rajesh Jain, North: Way 10ft Wide, South: house of Sh Subodh Jain	Mittal and Smt Namita Mittal W/O Atul Kumar

Note: The above notice be also considered as 30 days' notice for sale under rule 6.8 and 9 Date :12/11/2024 , Place : Saharanpur Uttar Pradesh

EURO ASIA EXPORTS LIMITED

Regd. Office: Plot No. 3-A, 1st Floor, Blk-x Loha Mandi, Naraina Industrial Area, New Delhi -110028 Corporate Office: 03rd Floor, Plot No. B- 103, South City I, Gurugram, Haryana- 122001 CIN No.: L51909DL1981PLC012621, Email:info@euroasiaexportsltd.com , Ph. No. 0124- 4577733 Extracts of Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30th September, 2024

		. (Rs. In Lakhs)
Particulars	Quarter ended 30 th September, 2024 (Unaudited)	Half Year ended 30 th September, 2024 (Unaudited)	Quarter ended 30 th September, 2023 (Unaudited)
Total income from operations (net)	7.44	162.98	5.21
Net (Loss) for the period before tax and			
Exceptional items	1.45	4.60	0.79
Net (Loss) for the period before tax	1.45	4.60	0.79
Net (Loss) for the period after tax	1.08	3.41	0.57
Total Comprehensive income for the period	1.08	3.41	0.57
Equity Share Capital	156.88	156.88	156.88
Earning Per Share :			
Basic	0.07	0.22	0.04
Diluted	0.07	0.22	0.04

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and the Company's website www.euroasiaexportsltd.com.

For and on behalf of Board of Directors of **EURO ASIA EXPORTS LIMITED**

13.11.2024 : New Delhi	Sd/- Rakesh Kumar Singal Managing Director DIN: 06595136	Mukund Murari Director DIN: 08606277

Department for Special Operations. HDFC Bank Ltd., Ground Floor, Gulab Bhawa ☐ HDFC BANK 6, Bahadur Shah Zafar Marg, ITO, New Delhi 110002.

POSSESSION NOTICE (SYMBOLIC) (FOR IMMOVABLE PROPERTY) (As per Appendix IV read with rule 8(1) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002) lereas, the Authorised Officer of HDFC Bank Ltd., under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of power conferred under Section 13(2) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ssued a demand notice dated 19.02.2024calling upon the Borrower M/s C Parkashan and Co, a Partnership Firm through its Partners Mr. Chand Parkash Goel & Mr. Sachin Goel and Guarantor(s) namely Mr. Chand Parkash Goel & Mr. Sachin Goel, to repay the amour ntioned in the Demand notice of Rs.4,20,92,231.87 (Rupees Four Crore Twenty Laki linety Two Thousand Two Hundred Thirty One and Paise Eighty Seven Only) as or 7.02.2024 and interest thereon w.e.f 18.02.2024 together with future interest and charge ereon within 60 days of the receipt of the said notice. The borrower(s)/Guarantor(s Mortgagor(s), having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower(s)/Guarantor(s)/Mortgagor(s), and the public in general, that the undersigned ha taken possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on hir under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on this 12th day of November, 2024 at Delhi. The borrower(s)/Mortgagor, in particular, and the public in general ar-hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject t he charge of HDFC Bank Ltd, for an amount of Rs.4,20,92,231.87 (Rupees Four Crore Twent). akh Ninety Two Thousand Two Hundred Thirty One and Paise Eighty Seven Only)and nterest thereon w.e.f18.02.2024 and interest thereon as aforesaid together with expenses and

arges etc.								
DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY								
Description of the Property	Date & Time of Possession							
ot No:16, East Avenue Road, East Punjabi Bagh, Village	12.11.2024							
asai Dara Pur,Delhi 110023, admeasuring 279.55 Sq Yards	Time 11.00 AM and thereafter.							
nd bunded as EAST: Plot No 14, WEST: PlotNo 18, NORTH: East Avenue Road,								
OUTH: Service Land								

lote: The above notice be also considered as 30 days' notice for sale under rule 6, 8 and 9 of the Act. Place: Faridabad, Haryana **Authotised Office** Date :12/11/2024 HDFC Bank Ltd.

Department for Special Operations.
HDFC Bank Ltd., Ground Floor, Gulab Bhaw HDFC BANK 6, Bahadur Shah Zafar Marg, ITO, New Delhi 110002. POSSESSION NOTICE (SYMBOLIC) (FOR IMMOVABLE PROPERTY)

(As per Appendix IV read with rule 8(1) of the Security Interest Enforcement Rules. 2002) Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of HDFC Bank Ltd., under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002, and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Securit Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a **Demand Notice Dated 16-August-2022** callin upon the borrower(s) M/S. R. N. GOEL & SONS PVT.LTD. (Borrower) Through its Director SH Naresh Goel (Director) and Ms Mala Goel (Mortgagor(s) /Guarantors(s), to repay the amount mentioned in the Demand Notice being Rs.3,29,15,216.62 (Rupees Three Crore Twenty Nine Lakh Fifteen Thousand Two Hundred Sixteen and Sixty Two Paisa Only) as on 16-08-2022 thereon w.e.f 17-08-2022 together with future interest and charges thereon within 60 days of the receipt of the said notice. The Borrower(s) / Guarantor(s)/Mortgagors(s), having failed to repart the amount, notice is hereby given to the Borrower(s)/Guarantor(s)/Mortgagors(s) and the publing general, that the undersigned has taken possession of the property described herein below it ercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of th said Rules, on this 11 day of November, 2024 at Meerut Uttar Pradesh. The Borrower(s) Guarantor(s) / Mortgagors(s), in particular, and the public in general is hereby cautioned not t deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of HDF(Bank Ltd., for an amount of Rs.3.29.15.216.62 (Rupees Three Crore Twenty Nine Lak) Fifteen Thousand Two Hundred Sixteen and Sixty Two Paisa Only) as on dated 16.08.2022 and from 17.08.2022 is due and payable by you as aforesaid together with expenses an charges etc.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY										
Description of the Property	Date & Time of Possession									
Commercial Property Bearing No. Shop on Ground Floor, Part of the Property No.197 Northern Soti Ganj Meerut, Uttar	11.11.2024 Time 11.00 AM and thereafter.									
Pradesh 250011 Area 41.27 Sq mtr Boundary: East: 28 ft 10 ir Ruchika Agarwal, WEST: 29 ft 9 inch wall thereafter proper 15ft 4 Inch wall vikil shop thereafter property of Krishna,	nch wall thereafter property of ty of Vishal Agarwal,North:									
thereafter rasta gali.										

Note: The above notice be also considered as 30 days' notice for sale under rule 6, 8 and 9 of the Act. Place: Faridabad, Harvana Date: 11/11/2024

ndurang Budhkar Marg, Worli, Mumb

Date, Time, And Venue For Public Eauction

On 12.12.2024 between 11.00 A.M and

AXIS BANK LTD. E-Auction Sale Notice For Sale of Immovable Property

Retail Asset Centre, AXIS BANK LTD, 1st Floor, G - 4/5, B, Sector-4, Gomti Nagar Extension, Lucknow, UP 226010

Registered Office: "Trishul". 3rd Floor Opp. Samartheshwar Temple Law Garden, Ellisbridge Ahmedabad – 38000

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial

Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest

lotice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) the

the below described immovable property is mortgaged/charged to the secured creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of Secured Creditor will be sold on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" on 12.12.2024 for recovery of Sr No. Rs. 31,89,017.00

S/O SH. OM PRAKASH. MRS. MADHU W/O SH. MANOJ KUMAR and in auction schedule for necessa

Till 11.12.2024 latest by

5:00 P.M. at Axis Bank Limite

(RAC), First Floor, G-4/5, B,

INDIA SHELTER FINANCE CORPORATION LTD.

Place:

Regd: Office:- Plot-15,6th Floor, Sec-44, Institutional Area, Gurugram, Haryana-122002

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Ini 2002 (hereinafter referred to as "the Act") read with Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (hereinafter referred to as "the Rules") 2002 (hereinafter referred to as "the Act") read with Nule 8(6) of the Security Interest (Enforcement), Nules, 2002 (nereinatter referred to as the Nules). Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s), Co Borrower(s) and Guarantor(s) of their legal heir(s) or representative(s) the the below described immovable property(s) mortgaged/charged to India Shelter Finance Corporation Limited (hereinafter referred to the Secured Creditor), the possession of which has been taken by the Authorized Officer of the Secured Creditor having its Registered Office at-6th Floor, Plot No 15, Institutional Area, Sector 4 Gurugram Haryana -122002, will be sold on "As is Where is," "As is What is" and "Whatever there is") basis on the dates mentioned for realization of the amount due to the Secured Creditor from the borrowers, co borrowers and guarantors. The sale will be done by the Authorized Officer at the

Loan Account Number/AP Number And Name of Borrower(s) / Co-Borrower(s) /Guarantor(s)	Demand Notice u/s 13(2) Date and Amount	Description of the Immovable Property/ Secured Asset	Date and Type of Possession	Reserve Price	Date and Time of Inspection of the property
	683895/- (Rupees Six Lakh Eighty Three Thousand Eight	All that part and parcel of the property situated at Patta No. 95 Book No. 451 WARD NO 12 MATILI RATHAN 15 F SRI GANGANAGAR RAJASTHAN	28-10-2024 Total Outstanding as On Date	Rs.972300/-(Nine Lakh Seventy Two Thousand Three Hundred Only)	10-12-2024 (Inspection Time 10:00 AM to 05:00 PM)
		Bikaner Area 3970 Sq. Feet. BOUNDARY:-East : Sultan	Rs.833145/- as on 4-nov-2024	Earnest Money Deposit (EMD) Rs.97,230/-(Ninety Seven Thousand	EMD Deposition Last Date 15-12-2024 Date and Time of
	Amount 10000/-	Ram West : Rasta North : Malak Singh South : Khali Plot, Gate		Two Hundred Thirty)	Auction 16-12-2024 (Auction Time 10:00 AM to 5:00 PM)
Loan Account Number/AP Number And Name of Borrower(s) / Co-Borrower(s) /Guarantor(s)	Demand Notice u/s 13(2) Date and Amount	Description of the Immovable Property/ Secured Asset	Date and Type of Possession	Reserve Price	Date and Time of Inspection of the property
HLSRCHLONS0000050 35370 / 10072427		All that part and parcel of the property situated at Patta No.		Rs.771750/- (Seven Lakh	10-12-2024 (Inspection Time
MRS. Banto Bai & MR. Balwant Singh	Lakh Twenty Six Thousand Three	21 Book No.433 Ward No.10 1 C Badi Gp Orki Sri	Total Outstanding as On Date	seventy one Thousand Seven	10:00 AM to 05:00 PM)
	Hundred Twenty Seven Only)	Ganganagar Rajasthan 335901 BOUNDARY:- East : Lakhmir Singh / Jagtar Singh,West :	Rs. 778520/- As on 4-Nov-2024	Hundred Fifty/-) Earnest Money Deposit (EMD)	EMD Deposition Last Date 15-12-2024
	Bid Increase Amount 10000/-	Ram Singh / Mukhtyar Singh,North : Gali (Aam Rasta),South : Gali (Aam Rasta)		77,200/-(Seventy Seven Thousand Two Hundred Only)	Date and Time of Auction 16-12-2024 (Auction Time 10:00 AM to 5:00 PM)
Place of EMD Deposition	: :No 1, 1st Floor, Block (G, Gurudwara Rd, near Nanak Darl	oar, G Block, Sri Ganganag	ar, 6 Z, Rajasthan 335	5001

lace of Auction: No 1, 1st Floor, Block G, Gurudwara Rd, near Nanak Darbar, G Block, Sri Ganganagar, 6 Z, Rajasthan 335001

Mode Of Payment: - All payment shall be made by demand draft/RTGS in favour of India Shelter Finance Corporation Limited.
For detailed terms and condition of the sale, please refer to the Secured Creditor's website www.indiashelter.in or contact Authorized Officer--Vina Place: Rajasthan, Date :- 14.11.2024 (AUTHORIZED OFFICER) INDIA SHELTER FINANCE CORPORATION LTD

A-270 (FF & SF), Defence Colony, New Delhi-110 024, Tel.: 91-11-46562580 - 83 Fax: 91-11-46562584, Email: admin@alchemistarc.com, Web: www.alchemistarc.co E - AUCTION SALE NOTICE (under SARFAESI Act, 2002) SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

ALCHEMIST ASSET RECONSTRUCTION COMPANY LIMITED

-Auction Sale notice for Sale of Immovable Secured Assets under Securitisation And Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement O Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act, 2002) read with proviso to Rule 8(6) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (Rules, 2002) Notice is hereby given to the public in general and to the Borrower/s and Guarantor/s in particular, by the Authorized Officer, as mentioned below that the physical possession of the under mentioned property mortgaged to DMI Housing Finance Private Limited but pursuant to Assignment Agreement dated 30th December, 2016 DMI Housing Finance Private Limited assigned to Alchemist Asset Reconstruction Company Limitec Secured Creditor), in its capacity as trustee of Alchemist – XV Trust the financial assistance granted to the Borrower together with all underlyin Security interest and all their rights in respect thereof in terms of Section 5 of the SARFAESI Act, 2002 acting in its capacity as trustee of Alchemis

— XV Trust, had already been taken over under provisions of section 13 (4) of the SARFAESI Act, 2002 on September 9th, 2017. Whereas th
Secured Creditor acting through its Authorized Officer, in exercise of its powers under Section 13(4) of SARFAESI Act, 2002, will put the below mentioned property to E-Auction for recovery of under mentioned dues and further interest, charges and costs etc. The property are being sold on "AS IS WHERE IS BASIS" "AS IS WHAT IT IS BASIS" & "WHATEVER THERE IS BASIS" as such sale is without any kind of warranties and indemnities. The under-mentioned property will be sold by way of "Online E-Auction through website https://www.bankeauctions.com. Inspection Date & Time: 08/12/2024 at 10.00 Am to 4.00 Pm, Date & Time of e-Auction: 19/12/2024 at 11.00 Am to 01.00 Pm Last Date of submission of Bid/EMD: 16/12/2024 upto 04.30 PM.

ı	Name of Borrower/Co-borrower/	0	Details of	K	S.
ı	Guarantor/Mortgagor	Outstanding Amount	Secured Assets	Reserve Price	EMD 10%
	1. Mr. Gaurav Arora, S/o Gopal Kishan Arora, resident at: r/o a-555, 2nd floor shastri nagar north west delhi-52; also at: 561/2 3rd floor a block shastri nagar north west delhi-52. also at: a-318, shastri nagar, delhi-52. also at: c/o gaurav enterprises, 309, third floor, garg plaza, gulabi bagh, delhi-110007 mob: 9911932360, mob: 9717556351, mob: 8920010436, mob: 9667766678 g u l l u k r o r a 4 9 0 @ g m a i l . c o m ,	crore four thousand three hundred and eighty only) which was earlier sanctioned by dmi housing finance private limited and now with alchemist trust xv. Above dues as on 31/08/2024 with further interest along with the costs and expenses till the	Entire first floor of property bearing municipal no – b – 1028/2, built on an area measuring 50 sq yards (41.80 sq mts. Approx) without its roof right situated at shastri	1242000/- (TWELVE LAKHS FORTY TWO THOUSAND	124200/- (One Lakh Twenty Four
ı	gauravkumar@gmail.com, garora387@gmail.com, gulluarora490@gmail.com	date of full and final payment.	nagar, delhi – 52.		

2. Mrs. Annu Arora, W/o Mr. Gaurav Arora, a-555, 2nd floor shastri nagar north west delhi 110052 also at 561/2 3rd floor a block shast nagar north west delhi. also at: a-318, shastri nagar, delhi - 110052. gulluarora490@gmail.com mob: 9717556351

Terms & Conditions: 1.E-Auction is being held on "AS IS WHERE IS BASIS" "AS IS WHAT IT IS BASIS" & "WHATEVER THERE IS BASIS" afte ms & Conditions: 1.E-Auction is being held on "AS IS WHERE IS BASIS" "AS IS WHAT IT IS BASIS" & "WHATEVER THERE IS BASIS" after taking possession of the property. The Bidder/s has to satisfy himself about the details of Property before submitting their bids/taking part in e-auction sale proceedings. The bidder/purchaser should make their own inquiries regarding any statutory liabilities, arrears of tax, claims etc. by themselves before making the bid. The Authorised Officer/Secured Creditor does not undertake any responsibility to procure any permission/license, NOC etc. in respect of the Property offered for sale or for any dues like outstanding water/service charges, transfer fees, electricity dues, dues of the Municipal Corporation/local authority/Co-operative Housing Society or any other dues, taxes, levies, fees/transfer fees if any, in respect of and/or in relation to the sale of the said Property. Successful bidder has to comply with the provisions of Income Tax regarding purchase of Property & to pay the tax to the authorities as per applicable rates. Further, to the best of knowledge and information of the Authorised Officer, there is no encumbrance on any Property. However, the intending bidders should make their own independent inquiries regarding the encumbrances, title of property(ies) put on auction and claims/ rights/ dues/ effecting the property, prior to submitting their bid. The e-Auction advertisement does not constitute and will not be deemed to constitute any commitment or any representation of the Secured Creditor. The property is being sold with all the existing and future encumbrances whether known or unknown to the Secured Creditor. The Authorised Officer/ Secured Creditor shall not be responsible in any way for any third party claims/ rights/ dues/outstanding statutor.

It shall be the responsibility of the bidders to inspect and satisfy themselves about the asset and specification before submitting the bid. The inspection of property(ies) put on auction will be permitted to interested bidders at sites as mentioned against the property description.

The interested bidders shall submit their Earnest Money Deposit (EMD) details and documents through Web Portal https://www.bankeauctions.com (the user ID & Password can be obtained free of cost by registering name https://www.bankeauctions.com (the user ID & Password can be obtained free of cost by registering name with https://www.bankeauctions.com) through Login ID & Password. The interested bidders who require assistance in creating Login ID & Password, uploading data, submitting Bid Documents, Training/ Demonstration on Online Inter-se Bidding etc., may contact M/s. C1 India Pvt. Ltd., 3rd Floor, Plot No. 68, Sector – 44, Gurgaon, Haryana. Pin: 122003, e-mail ID: support@bankeauctions.com Helpline No: 0124-4302020,21,22,23 Contact No: 7291981124,25,26 Contact person: Mr. Dharani Khna Contact No +91-9948182222 and for any property related query may contact Authorised Officer: Mr. Jeevan Kumar; Mobile No: 8882847477, e-mail ID: jeevan@alchemistarc.com during the working hours from Monday to Saturday.

during the working hours from Monday to Saturday.

The EMD shall be payable through NEFT/ RTGS (receipt of which shall be enclosed with the bid) latest by 16/12/2024 till 4:30. in the followin Account with- Axis Bank Limited, Account No. 911020022947728, Name of the A/C: Alchemist-XV TRUST, IFSC Code: UTIB0000357 or by way of Demand Draft / Pay Order drawn in favour of 'ALCHEMIST-XV TRUST' & addressed to Authorised Officer, Alchemist Asse Reconstruction Company Limited, A-270, (1st & 2nd Floor), Defence Colony, New Delhi-110024.

The asset will not be sold below the Reserve Price. The Authorised Officer is not bound to accept the highest offer and the Authorised Officer is not bound to accept the highest offer any real affects to additionally operations of payable the payable triplets are applied and the Authorised Officer.

has the absolute right to accept or reject any or all offer(s) or adjourn/ postpone/ cancel the e-Auction without assigning any reason thereof The EMD of successful bidder shall be retained towards part sale consideration and the EMD of unsuccessful bidders shall be refunded within Ine EMD of successful bidder shall be retained towards part sale consideration and the EMD of unsuccessful bidders shall be retunded within working days from the date of auction and after receiving self-attested copy of PAN, identity proof and detail of account along with its statemen from which the EMD was paid. The EMD shall not bear any interest. The successful bidder shall have to deposit 25% of the sale price, adjusting the EMD already paid, immediately i.e. on the same day or not later than next working day and the balance 75% of the sale price within 15 day from the date of confirmation of sale or such extended period as agreed upon in writing by and solely at the discretion of the Authorised Officer. Bidder shall be required to submit a declaration under section 29(A) of IBC, 2016 in form enclosed with bid documents.

FOR DETAILED TERMS & CONDITIONS PLEASE REFER OUR WEBSITE www.alchemistarc.com AND https://www.bankeauctions.com

The Intimation Notice dated 1.10.2024 to the Borrowers / Guarantors as stipulated in section 13(8) of the SARFAESI Act, 2002 read with Rule 8(6) of Rules, 2002 for last and final opportunity to discharge the liability in full before 14.11.2024 i.e. date of publication of Sale Notice was issued under SARFAESI Act, 2002 and Rules, 2002 has already been served upon the Borrowers Accordingly, since the Borrowers have no paid the outstanding dues mentioned in the said Intimation Notice the asset will be sold as per terms and conditions mentioned above.

Sd/- (Authorised Office Place: New Delhi Date: 14/11/2024 Alchemist Asset Reconstruction Company Limite Department for Special Operations : HDFC Bank Ltd., Ground Floor, Gulab Bhawan, 6, Bahadur Shah Zafar Marg, ITO, New Delhi 110002

DEMAND NOTICE -U/S 13(2) OF THE SARFAESI ACT, 2002 Notice is hereby given to undermentioned borrower, guarantor(s) & mortgagor(s) who have defaulted e-payment of the loan facility(ies) obtained by them from HDFC Bank and whose loan account has bee classified as non-performing asset (NPA) on 28.06.2024. The notices were issued on 07.11.2024 to ther u/s 13(2) of the Securitisation of Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of the Securit nterest Act, 2002 (SARFAESI Act, 2002) Act on their last known addresses but few of them have returne

ın-served, thus they are being informed by way of this public notice. Name of the Borrower: 1. M/s. Matta Automobiles (Now, Represented through Legal Heir of Lat Mr. Pasupathi Matta) Address at: Road No. 56, Full Building, Ghazipur, Delhi-110096 Email Pasupathi.matta@gmail.com, Ph.: 9811156529, 9899892246 Also at: Flat No. B-102, Taj Apartment Ghazipur, East Delhi, Delhi-110096, 2, Mr. Matta Lazarus Kapil (Legal Heir of Late Mr. Pasupatr

Matta) Address at: Flat No. B-102, Taj Apartment, Ghazipur, East Delhi, Delhi-110096 Name of the Guarantor: 3. Ms. Dharma Kumar Matta (Guarantor/ Legal Heir of Late Mr. Pasupat

ı									
ı	Description of property	Asset belon	Asset belonging to						
ı	Hypothecation by way of exclusive charge on all present a	d M/s Matta Auto	mobiles						
ı	future stocks & book debts.								
ı	DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY								
ı	Description of property		Owned By						
ı	Residential Property bearing B-102, Taj Apartment, Gazipur,	East Delhi, Delhi-110096,	Late Mr.						
ı		along with construction made thereon. Area- 103.64 Sq. Yds. Boundaries-East-							
I	Passage, West- Other Flat, North- Entry, South- Passage								
ı	Date of Notice: 07.11.2024 Date of	NPA: 28.06.2022							

Amount Outstanding (As on 31.10.2024): Rs.4,45,92,790.63 (Rupees Four Crores Forty Five Lacs Ninety Two Thousand Seven Hundred Ninety and Paise Sixty Three)along with interest and charges as per agreed contractual rate from 01.11.2024 is due and payable by you The above named borrower and/or their guarantor(s)/mortgagors(s) are hereby called upon to map payment of outstanding amount within 60 days from the date of publication of this notice, failing wh further steps will be taken after expiry of 60 days under sub-section (4) of Section 13 of SARFAESI Act. Date: 14.11.2024, Place: New Delhi For HDFC Bank Ltd., Authorised Office

Matta) Address at: Flat No. B-102, Taj Apartment, Ghazipur, East Delhi, Delhi-110096 DESCRIPTION OF THE MOVABLE PROPERTIES

12.00 Noon. with unlimited extensions of 5 minutes each at web portal https://www.bankeauctions.com through DD/PO in favor of Sector-4, Gomti Nagar Extension only) e-auction tender documents cont Lucknow - 226010, U.P. 'Axis bank Itd.' e-auction bid form, declaration etc Addressed to Mr. Amod Singh. Lucknow DESCRIPTION OF PROPERTY: land/property admeasuring area 243.30 sq.mt, situated at Part of Prop

(Rs Ten

Thousand

Kh.no. 16, Khurawa, Mauza Khurawa, Pargana Parwa Doon, Dehradun, Uttarakhand, India-248001 Bounded as: East - Land of Others. Side measuring 82 ft. 7 inch. West - Land of Others. Side measuring 78 ft., North - Land of Others, Side measuring 32 ft. 10 inch, South - Road, Side measuring 32 ft. 10 inch For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in the secured creditor's website i.e. https://www.axisbank.com/auction-retail and the Bank's approved service provider M/S C1 India Private Limited at their web portal https://www.bankeauctions.com, may also contact Mr. Mithalesi Kumar- +91-7080804466 The auction will be conducted online through the Bank's approved service provider M/s.C1 India Private Limited at their web portal https://www.bankeauctions.com. For any other sistance, the intending bidders may contact Mr. NIKHIL SHARMA, Mobile No. (9935109620) of the Bank during office hours from 9:30 a.m. to 5:30 p.m. This Notice should be considered as 15 Days' Notice to the Borrowers under Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) rule, 2002. Authorized Officer, Axis Bank Ltd. Date: 14.11.2024

NDA SECURITIES LIMITED

(Enforcement) Rule, 2002.

cumbrances Earnest Money Deposit (If Any)

Rs. 25.13.194.00 (RP) Rs. 10.000/

Rs. 2,51,320.00 (EMD)

CIN: L74899DL1992PLC050366

Registered Office: E-157, Second Floor, Kalka Ji, New Delhi- 110019 Phone: 91-46204000, Email: info@ndaindia.com, Website: www.ndaindia.com

Statement of Extract of Un-Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Half Vear ended Sen 30, 2024

	ior the	Quarter	and Hai	i tear en	aea Sep	30, 2024 (Amount Rs. i				t Rs. in Lacs)
			Standalone			Consolidated				
Particulars	Quarte	r Ended	Half Yea	r Ended	Year Ended	Quarte	r Ended	Half Year	Year Ended	
	Unaudited				Audited		Unaudited			
	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024
Total Income	210.93	163.45	382.41	285.15	655.21	211.33	163.68	383.00	285.57	656.73
Net Profit Before Tax	47.76	23.47	70.48	27.31	94.21	47.20	22.46	69.09	25.58	91.80
Net Profit After Tax	35.72	17.58	52.13	19.75	65.84	35.16	16.58	50.74	18.14	63.08
Comprehensive income for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	0.14	-1.19	0.33	0.29	4.33	0.14	-1.19	0.33	0.29	4.33
Total Comprehensive income	35.86	16.39	52.46	20.04	70.17	35.30	15.39	51.07	18.43	67.41
Paid up Equity Share Capital (FV 10/-)	594.84	594.84	594.84	594.84	594.84	594.84	594.84	594.84	594.84	594.84
Other Equity			578.77		526.31			542.16		491.09
Earning Per Share in Rupees (Per Share of Rs. 10/- each Basic and Diluted)	0.60	0.30	0.88	0.33	1.11	0.59	0.28	0.85	0.30	1.06

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing obligation and Disclosure $Requirements) \, Regulations, 2015. \, The \, Full \, format \, of \, the \, Quarterly \, Financial \, Results \, are \, available \, on \, the \, Stock \, exchange \, website. \\ \underline{(www.bseindia.com)} \, and \, Company' \, description \, for a \, the \, Company' \, description \, descripti$ Website (www.ndaindia.com)

For and on behalf of the Board of Director for NDA Securities Limited

Sanjay Agarwal

(Managing Director) DIN: 00010639



Place: New Delhi

Date: 13.11.2024

Extract of Standalone and Consolidated Financial Results (Unaudited) for the Quarter and Half Year Ended September 30, 2024

(₹ in Lakh except per share)

		Standalone Consolidated				one Consolidated						
	Q	Quarter Ended		Half yea	Half year ended Year Ended		d Quarter Ended			Half year ended		Year Ended
Particulars	September	June	September	September	September	March	September	June	September	September	September	March
	30, 2024	30, 2024	30, 2023	30, 2024	30, 2023	31, 2024	30, 2024	30, 2024	30, 2023	30, 2024	30, 2023	31, 2024
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total income from operations	7,664	5,688	9,459	13,352	18,400	35,960	14,735	11,572	14,302	26,307	27,221	55,917
Net Profit / (Loss) for the period / year (before tax, exceptional and / or extraordinary item)	130	(1,498)	320	(1,368)	449	421	199	(1,979)	(1,055)	(1,780)	(2,526)	(3,455)
Net Profit / (Loss) for the period / year before tax (after exceptional and / or extraordinary item)	130	(1,498)	320	(1,368)	449	421	476	(1,705)	(778)	(1,229)	525	148
Net Profit / (Loss) for the period / year after tax (after exceptional and / or extraordinary item)	129	(1,378)	320	(1,249)	449	355	471	(1,588)	(829)	(1,117)	269	(150)
Total comprehensive income / (loss) for the period / year (comprising of profit / (loss) for the period / year (after tax) and other comprehensive income (after tax))	126	(1,378)	320	(1,252)	449	349	451	(1,585)	(818)	(1,134)	290	(189)
Equity Share Capital (face value of ₹1 per share)	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613	613
Earning / (loss) per equity share, (annualised, except for quarters / half years): Basic and Diluted	0.21	(2.25)	0.52	(2.04)	0.73	0.58	0.77	(2.59)	(1.35)	(1.80)	0.44	(0.19)

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Half Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requiren Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Half Yearly Financial Results is available on the Stock Exchanges websites, NSE- http://www.nseindia.com, BSE- http://www.bseindia.com, BSE- http://www.bseindia.com available on the Company's website, http://www.panaceabiotec.com, 2. The above financial results were reviewed by the Audit Committee of the Board of Directors and approved by the Board of Directors at heir meetings held on November 12, 2024 and November 13, 2024 respectively. 3. The financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of applicable Indian Accounting Standard ("Ind-AS") notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as specified in section 133 of the Companies Act, 2013 4. Previous period / year amounts have beer regrouped/reclassified to make them comparable with those of current period/year.

For and on behalf of the Board of Directors of

Panacea Biotec Limited

Dr. Rajesh Jain **Chairman & Managing Director**

Panacea Biotec Limited

Regd. Office: Ambala-Chandigarh Highway, Lalru- 140501, Punjab CIN: L33117PB1984PLC022350, Ph. No. 91-11-41679000, Website: https://www.panacea-biotec.com, E-mail: Corporate@panaceabiotec.com









Place: New Delhi

Date: November 13, 2024



















एमसंस इंटरनेशनल लिमिटेड

सीआईएन: L74899DL1993PLC053060

www.emmsons.com. ई-मेलः corporate@emmsons.co

30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए एकल अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का सार

(पशि लाखों में इंपीएस को छोड़व								
豖.	A		तिमाही समाप्त		छमाही	वर्ष समाप्त		
₹İ.	विवरण	30.09.2024	30.06.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024	
		(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	
1.	प्रचालनों से कुल आय	53.22	1.27	_	54.49	_	3.84	
2.	अवधि के लिए लाभ / (हानि) (असाधारण मदों और कर से पूर्व)	26.54	(17.66)	(4,798.40)	8.88	(9,546.73)	(19,112.22)	
3.	कर पूर्व अवधि के लिए लाभ / (हानि) (असाधारण मदों के बाद)	26.54	(17.66)	(4,798.40)	8.88	(9,546.73)	(19,112.22)	
4.	कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	26.54	(17.66)	(4,798.40)	8.88	(9,546.73)	(19,112.22)	
5.	कुल समग्र आय	27.26	(16.95)	(4,798.01)	10.31	(9,546.04)	(19,107.21)	
6.	इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु. 10/— प्रत्येक) पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर आरक्षित	1,199.60	1,199.60	1,199.60	1,199.60	1,199.60	1,199.60 (235,225.64)	
7.	प्रति शेयर अर्जन रु. 10 / – प्रत्येक (1) बेसिक (रु.) (2) डायल्युटेड (रु.)	0.22 0.22	(0.15) (0.15)	(40.00) (40.00)	0.07 0.07	(79.58) (79.58)	(159.32) (159.32)	

30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का सार

(राश लाखा म इपाएस का छा									
			तिमाही समाप्त वर्ष			छमाही समाप्त			
		30.09.2024	30.06.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024		
		(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)		
1.	प्रचालनों से कुल आय	53.22	1.27	_	54.49	_	3.84		
2.	अवधि के लिए लाभ / (हानि) (असाधारण मदों और कर से पूर्व)	26.54	(17.66)	(4,798.40)	8.88	(9,546.73)	(19,112.22)		
3.	कर पूर्व अवधि के लिए लाभ / (हानि) (असाधारण मदों के बाद)	26.54	(17.66)	(4,798.40)	8.88	(9,546.73)	(19,112.22)		
4.	कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण मदों के बाद)	26.54	(17.66)	(4,798.40)	8.88	(9,546.73)	(19,112.22)		
5.	कुल समग्र आय	27.26	(16.95)	(4,798.01)	10.31	(9,546.04)	(19,107.21)		
6.	इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु. 10/- प्रत्येक) पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर आरक्षित	1,199.60	1,199.60 -	1,199.60 -	1,199.60 -	1,199.60 -	1,199.60 (261,506.87)		
7.	प्रति शेयर अर्जन रु. 10 / — प्रत्येक (1) बेसिक (रु.) (2) डायल्यूटेड (रु.)	0.22 0.22		(40.00) (40.00)	0.07 0.07	(79.58) (79.58)	(159.32) (159.32)		
नोट	<u> </u>								

उपर्यक्त अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा सीमित समीक्षा के तहत थे. लेखापरीक्षण समिति द्वारा समीक्षा की गई और निदेशक मंडल द्वारा 13 नवंबर, 2024 को आयोजित उनकी बैठक में अनुमोदित किए गए। सांविधिक लेखापरीक्षक की समीक्षा रिपोर्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज की जा रही है।

ऊपर सेबी (सूचीबद्ध और अन्य प्रकटन आवश्यकताएँ) नियमावली, 2015 के नियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में पेश किए गए 30 सितंबर, 2024 के समाप्त तिमाही और छमाही के लिए एकल वित्तीय परिणामों के विस्तृत रूप का सार है। इन वित्तीय परिणामों का विस्तृत पूर्ण रूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) पर उपलब्ध है। बोर्ड के आदेशानुसा हिते एमसंस इंटरनेशनल लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली दिनांक: 13 नवंबर, 2024

राजेश मोंगा पर्णकालिक निदेशक



एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

बैक ऑफिसः लक्ष्मी इंश्योरेंस बिल्डिंग, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 ई-नीलामी बिक्री सूचना

जबिक अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत एल.आई.सी. हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एलआईसी एचएफएल) का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में निम्नलिखित कर्जदारों/बंधककर्ताओं को कथित सूचनाओं में उल्लिखित राशि का भुगतान करने को कहते हुए मांग सूचना जारी की थी। किन्तु, कर्जदार∕बंधककर्ता कथित बकाया राशि को चुकाने में विफल रहे अतः अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करः हुए निम्नलिखित संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है।

क्र. सं.	ऋण सं./कर्जदार/ सह–कर्जदार का नाम	सम्पत्ति का पता तथा फ्लैट क्षेत्रफल.⁄ भूमि का यूडीएस	मांग सूचना की तिथि∕अधिकृत प्राधिकारी	आरक्षित मूल्य (रु.) में जमा धरोहर राशि संविदा वृद्धि राशि	बैंक विवरण (जिसमें ईएमडी हस्तान्तरित की जानी है)
1.	ऋण संख्याः- 31230001966 कर्जदारः- श्री दीपक बंसल (आवेदक) तथा सुश्री सुनैना	फ्रीहोल्ड सम्मूर्ण प्रथम तल, छत के अधिकार रहित, निर्मित सम्पत्ति सं. 121, पॉकेट-8, सेक्टर 23, क्षेत्रफल माप 32.00 वर्ग मीटर, रोहिणी रेस्दी के लेआउट प्लान में, रकीम रोहिणी दिल्ली-110085 में	02.06.2022 अधिकृत प्राधिकारी : सुश्री नेहा कुमारी मो. : 9555594753	も、30,00,000/- も、3,00,000/- も、30,000/-	लाभार्थी का नाम : एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, लाभार्थी शाखा का नाम : एक्सिस बैंक, केन्द्रीकृत कलेक्शन हब, खाता सं HFLENODEP104133; आईएफएससी कोड : UTIBOCCH274

स्थित, साथ में उक्त सम्पत्ति की भूमि के आनुपातिक फ्रीहोल्ड अधिकार, सीमाएं : पूर्व : प्लॉट नं. 122, पश्चिम : प्लॉट नं. 120, उत्तर : प्रवेश, दक्षिण : प्लॉट नं. 128, कुल क्षेत्रफल माप 32.00 वर्ग मीटर

ई-नीलामी की वेबसाइट	https://bankauctions.in
सम्पत्ति तथा दस्तावेज के निरीक्षण की तिथि एवं समय	13.12.2024 को 11:00 बजे पूर्वा. से 1:00 बजे अप.
ऑनलाइन मोड में ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि	16.12.2024 को 5:00 बजे अप. से पूर्व
ई-नीलामी की तिथि	18.12.2024 को 11:00 बजे पूर्वा. से 2:00 बजे अप.

उक्त संपत्तियों/आस्तियों की ई-नीलामी बिक्री के लिए इस सार्वजनिक सचना के आगे (सरफैसी. अधिनियम 2002 और उसके तहत नियमों के नियमों और शर्तों के अनुसार) एलआईसीएचएफएल ''जैसा है जहां है आधार'' और ''जो है यही है आधार'' पर उक्त संपत्तियों को खरीदने के लिए या तो सीलबंद लिफाफे में या ऑनलाइन मोड में प्रस्ताव आमंत्रित करता है।

नीलामी बिकी के नियम एवं शर्ते इस प्रकार हैं:-

- यह ई-नीलामी ''जैसा है जहां है'', ''जो है यही है'', ''जो कछ भी है वहीं है'' और आश्रय रहित आधार पर आयोजित की जा रही है और ''ऑनलाइन'' आयोजित की जाएगी। ईं-नीलामी एलआईसी–हाउसिंग फाइनेंस द्वारा अनुमोदित ईं-नीलामी सेवा प्रदाता ''मैसर्स 4 क्लोजर'' के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
- इच्छक बोलीदाताओं को पोर्टल https://bankauctions.in/ पर अपना नाम दर्ज कराना होगा और अपना यजर-आईडी और पासवर्ष निःशुल्क प्राप्त करना होगा। संभावित बोलीदोता सेवा प्रदाता मैसर्स 4 क्लोजरः वेबसाइट का नामः https://bankauctions.in तथ www.foreclosureindia.com, निजी वेबसाइटः Olx.in; कार्यालय ई-मेल आईडीः info@bankauctions.in; कार्यालय का पता मैसर्स 4 क्लोजर, # 605ए, 6ठी मंजिल, मैत्रीवनम, एचएमडीए, अमीरपेट, हैदराबाद - 500038, तेलंगाना; हेल्प लाइन डेस्क: लैंडलाइन 040-23736405 या 8142000062/66; टी जय प्रकाश रेड्डी प्रबंधक - संचालन; मोबाइल नंबर: 8142000064, ई-मेल आईडी prakash@bankauctions.in से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण ले सकते हैं।
- ई-नीलामी बिक्री सरफेसी अधिनियम/नियम 2002 में निर्धारित शर्तों/यहां उल्लिखित नियम और शर्तों/वेबसाइट के अधीन है और साथ ही इच्छुक/भार लेने वाले बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तत किए जाने वाले प्रस्ताव/बोली दस्तावेजों में निहित शर्तों के अधीन भी हैं।
- ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने के लिए प्रत्येक बोलीदाता के पास अपना स्वयं का ईमेल पता होना आवश्यक है।
- एक बार इच्छक बोलीदाता औपचारिक रूप से एलआईसीएचएफएल के अधिकत अधिकारी के समक्ष एक योग्य निविदाकर्ता के रूप में पंजीकत हो जाता है. तो उसे दस्तावेज जमा करके ई-नीलामी बोली प्लेटफॉर्म के माध्यम से भाग लेने के लिए अपनी रुचि व्यक्त करनी होगी। ई-नीलामी सेव प्रदाता से अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की जिम्मेदारी केवल निविदाकर्ता/ऑनलाइन बोलीदाता की होगी। उक्त संपत्तियों को ऊपर उल्लिखित आरक्षित मल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा।
- उक्त जमा/ओं को सफल बोलीदाताओं के मामले में समायोजित किया जाएगा, अन्यथा वापस कर दिया जाएगा। उक्त जमा धरोहर राशि पर कोई ह्यान नहीं देय होगा।
- यदि सफल बोलीदाता भगतान करने में चक करता है या सीलबंद निवदा/नीलामी के नियमों और शर्तों का किसी भी तरह से पालन करने में विफल रहता है. तो पदत्त जमा राशि जब्त कर ली जाएगी और जब्त की गई राशि के लिए उसका कोई दावा नहीं होगा।
- उक्त जमा धरोहर राशि (ईएमडी) के साथ प्रस्ताव/वों को या तो सेवा प्रदाता के पास 'ऑनलाइन' पोर्टल ँ३३स्न२:/iृह्लं ४ू३ङ्गळ, छ/ के माध्यम से ईएमडी और पैन कार्ड तथा पता प्रमाण सहित केवाईसी दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति के साथ जमा किया जा सकता है या सीलबंद कवर गं बोली फॉर्म, ईएमडी और केवाईसी दस्तावेजों को जमा करके किया जा सकता है और यह एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के संबंधित शाख कार्यालयों में ईएमडी जमा करने की देय तिथि पर या उससे पहले पहुंच जाना चाहिए।
- o. यह कि. निविदाएं खोलने के बाद. इच्छक बोलीदाताओं. जिन्होंने आरक्षित मल्य से अधिक पर अपनी बोली पस्तत की है. को बोली राशि बढ़ाने के लिए प्राधिकत अधिकारी के विवेकाधिकार पर एक अवसर दिया जाएगा।
- 1. बिकी के संबंध में पाधिकत अधिकारी द्वारा पुस्ताव स्वीकार किए जाने पर. सफल बोलीदाता को पहले से भगतान की गई ईएमडी को समायोजित करते हुए, बिक्री मुल्य की राशि का 25% जमा करना होगा, जिसमें विफल रहने पर जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। बिक्री मुल्य का शेप 75% बिक्री की पृष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर केवल प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर देय है। निर्धारित अवधि में बकाया राशि जमा नहीं करने की स्थिति में जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी। प्राधिकृत अधिकारी को सफल बोली लगाने वाले को जब्ती की कोई अन्य सूचना देने
- बोलीदाता 'कैविएट एम्प्टर' (क्रेता सावधान) के सिद्धांत से बंधे हैं और किसी भी ऋणभार, वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर की बकाया राशि आयकर, उत्पाद शुल्क, श्रम बकाया, बिजली और रखरखाव, फर्म या प्रतिभूत संपत्ति का बकाया आदि का पता लगाने के लिए उन्हें अपने स्वयं के इयू डिलिजेंस करने की सलाह दी जाती है। सफल बोलीदाताओं को बिक्री मूल्य के अलावा सम्पत्ति से संबंधित सभी व्यय यानी नगरपालिका कर, रखरखाव/सोसायटी शुल्क, बिजली शुल्क, जल शुल्क, स्टांप ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क, (यदि लागू हो), और अन्य सभी आकरिमक शुल्क, लाग सहित सभी व्यय से संबंधित खर्च वहन करना होगा।
- सफल बोलीदाता को बिक्री प्रमाण पत्र पर देय शुल्क/प्रभार, जैसे पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, कर, या प्रतिभृत संपत्ति को उसके नाम पर स्थानांतिर करने के लिए देय कोई अन्य शुल्क वहन करना होगा।
- 4. बिक्री प्रमाण पत्र केवल सफल बोली लगाने वाले के नाम पर और संपूर्ण/बिक्री मूल्य की प्राप्ति के बाद ही जारी किया जाएगा।
- 15. एतदद्वारा कर्जदार, बंधककर्ता/गारंटर/जमानतियों को नोटिस दिया जाता है कि वे ई-नीलामी बिक्री के नियमों और शर्तों के अनसार उपरोक्त संपत्तियों को खरीदने के इच्छक खरीदार/क्रेता को ला सकते हैं।
- अनुरोध पर और प्राधिकृत अधिकारी की सुविधा के अनुसार उक्त संपत्तियों का निरीक्षण किया जा सकता है।
- 17. पाधिकत अधिकारी उच्चतम पस्ताव या किसी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और बिना कोई कारण बताए किसी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- s. एलआईसीएचएफएल ऊपर वर्णित संपत्तियों पर किसी भी देनदारी के लिए जिम्मेदार नहीं है। संपत्ति की नीलामी ''जैसा है जहां है' ''जो है यही है'', ''जो कुछ भी है वहीं है'' और आश्रय रहित आधार पर की जाएगी।
- 9. एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड बिना कोई कारण बताए या पूर्व सूचना दिए बिना निविदा बिक्री/नीलामी को रद्द/स्वीकार/अस्वीकार/परिवर्तन/संशोधित/स्थगित करने का अधिकार सरक्षित रखता है।
- o. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और सूचना के अनुसार, संपत्ति पर कोई अन्य ऋणभार नहीं है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड बिक्री के तहत संपत्ति के संबंध में किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार और ऋणभार, संपत्ति कर, या सरकार या किसी अन्य के लिए किसी अन्य देय राशि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- यह बिक्री एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा पृष्टि के अधीन है।

दिनांक: 14.11.2024

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों और संपत्तियों के पूर्ण विवरण के लिए कृपया अनुमोदित ई-नीलामी सेवा प्रदाता ''**मैसर्स** 4 **क्लोजर'' की** वेबसाइट और वेबसाइट https://bankauctions.in तथा www.foreclosureindia.com देखें।

सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत 30 दिनों की वैधानिक बिक्री सूचना



SHIVAM AUTOTECH LTD

शिवम ऑटोटेक लिमिटेड

सीआईएनः L34300HR2005PLC081531 **पंजीकृत कार्यालयः** 10, पहली मंजिल, टॉवर—ए, एमार डिजिटल ग्रीन्स, सेक्टर—61, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, गुरुग्राम, हरियाणा — 122102 टेलीफोनः 0124-4698700; फैक्सः 0124-4698798 र्ड-मेलः info@shivamautotech.com: वेबसाइटः www.shivamautotech.com

30 सितम्बर 2024 को समाप्त तिमाही हेतु अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का उद्धरण (रुपये लाखों में)

			समाप्त तिमाही		
क्र. स,	विवरण	30.09.2024	30.06.2024	31.03.2024	
Χ1,		(अनअंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	
1.	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	12,043.36	11,296.60	12,374.07	
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) (कर एवं विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के पूर्व)	(1,049.32)	(973.58)	(688.36)	
3.	अवधि हेतु कर पूर्व शुद्ध लाम/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के पश्चात्)	(1,049.32)	(973.58)	(688.36)	
4.	अवधि हेतु कर पश्चात् शुद्ध लाम/(हानि) (विशिष्ट एवं/ अथवा असाधारण मदों के पश्चात्)	(1,109.02)	(1,033.28)	(781.56)	
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाम/(हानि) (कर पश्चात्) एवं अन्य व्यापक आय (कर पश्चात्) शामिल]	(1,121.61)	(1,045.87)	(885.93)	
6.	समता अंश पूँजी	2,444.44	2,444.44	2,444.44	
7.	अन्य इक्विटी	-	-	-	
8.	प्रति अंश आय (रु 2/- प्रति अंश), जारी एवं बंद प्रचालनों हेतु				
	मूलभूत	(0.91)	(0.85)	(0.64)	
	तरल	(0.91)	(0.85)	(0.64)	

- उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के अन्तर्गत स्टॉक एक्सचेन्जों के पास दाखिल किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों का उद्धरण है। तिमाही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.nseindia.com एवं www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइट www.shivamautotech.com पर उपलब्ध है।
- 2. पूर्व अवधि के ऑकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

कृते एवं शिवम ऑटोटेक लिमिटेड के लिए हस्ता/-

स्थान : गरुग्राम दिनांक : 13 नवम्बर, 2024

नीरज मुंजाल प्रबंध निदेशक

आलकेमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

ए-270 (प्रथम तल एवं द्वितीय तल), डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली- 110024, टेलीफोन: 91-11-46562580-83 फैक्सः +91-11-46562584, ई-मेलः admin@alchemistarc.com, Web: www.alchemistarc.com

अचल प्रतिभत आस्ति (सरफैसी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत) ई-नीलामी बिक्री के लिए सार्वजनिक सचना प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनिः आर्त्रमुं । ति (अंतर्ग) नपन, 2002 के नपन अर्थ, के सप्तुष्क स्ति चांचा पांचा आत्माचा आ आर्त्रमुं । ति अर्थ अर्थ 2002 (सर्पर्करी अधिनियम 2002) के अधीन अचल प्रतिभूत आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलागी विक्रय सूचना । एतह्वारा आम जनता को और विशेष रूप से ऋणीयों और जमानतदारों को, नीचे उह्लिखित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि नीचे उह्लिखित संपत्ति का भौति

ारामण्ड न जाराकारण्ड-२४ प्रटूप राज्य हुए राज्य स्वाचा प्रवास्त्र का साथ पूर्वा चार अस्त्र नात्व का बार हुए हा जारा स्व का प्रतिमृतिकार और पुनांचन तथा प्रतिमृति हिन का प्रवर्तन अधिनया 2002 की धारा 13(4) के प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 09 सिताबर, 2017 को ले लिया था। जबबि प्रतिभृति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे वर्णित सम्पत्ति के बकाया और आगे के ब्याज, प्रभार एवं लागतों की वसूली हेतु निम्न वर्णित सम्पत्तियों को ई-नीलामी में रख गाएगा। संपत्ति को 'जहां है जैसी है' 'जो है जैसी है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेचा जा रहा है क्योंकि ऐसी बिक्री किसी भी प्रकार की वारंटी और क्षतिपूर्ति के बिना है नीचे वर्णित अचल प्रतिभत आस्ति को ऑनलाईन ई-नीलामी जरिये वेबसाईट https://www.bankeauctions.com के द्वारा बेचा जाएगा।

नेरीक्षण की दिनांक व समयः 08/12/2024 को प्रातः 10.00 बजे से साय 04.00 बजे तक। –नीलामी की दिनांक व समयः <mark>19/12/2024</mark> को प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक।

ानावदा/ इएमडा जमा दिनाक का आतम दिनाक: 16/1 2/2 0 24 साथ 4.30 बज तक।										
ऋणी/सह-ऋणी/जमानतदार	बकाया राशि	प्रतिभूति आस्ति	(रूपये)							
/बंधककर्ता का नाम	वकाया साश	का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी 10%						
1. श्री गौरव अरोड़ा, पुत्र गोपाल किशन अरोड़ा,				1.24.200/-						
निवासी: ए-555, द्वितीय तल, शास्त्री नगर उत्तर			(रूपये	(रूपये						
पश्चिम दिल्ली-52; अन्य निवासी: 561/2 तृतीय				एक लाख						
तल ए ब्लॉक शास्त्री नगर उत्तर पश्चिम दिल्ली-52				चौबीस हजार						
अन्य निवासी: ए-३१८, शास्त्री नगर, दिल्ली-52,	पास है। 31/08/2024 तक उपरोक्त बकाया	41.80 वर्ग मीटर) बिना छत	मान)	दो सौ मात्र)						
यहां भी: केयर ऑफ गौरव एंटरप्राइजेज, 309,	राशि, पूर्ण और अंतिम भुगतान की तिथि तक	के, शास्त्री नगर, दिल्ली-52 में	1117	4						
तीसरी मंजिल, गर्ग प्लाजा, गुलाबी बाग, दिल्ली-	लागत और व्यय के साथ अतिरिक्त ब्याज।	स्थित है।								

110007 मोबाइलः 9911932360, मोबाइलः 9717556351, मोबाइलः 8920010436, मोबाइलः 9667766678 gullukrora490@gmail.con gauravkumar@gmail.com, garora387@gmail.com, gulluarora490@gmail.com 2. श्रीमती अन्नू अरोड़ा, पत्नी श्री गौरव अरोड़ा, ए-555, दूसरी मंजिल शास्त्री नगर उत्तर पश्चिम दिल्ली 110052 यहां भी: 561/2 तीसरी मंजिल ए ब्लॉक शास्त्र ागर उत्तर पश्चिमे दिल्ली, यहां भी: ए-318, शास्त्री नगर, दिल्ली- 110052. gulluarora490@gmail.com मोबाइल: 9717556351

- अचल प्रतिभत आस्ति का कब्जा लेने के बाद ई-नीलामी 'जैसा है जहां है के आधार पर' 'जैसा है जो है के आधार पर'. 'जो कछ भी है के आधार पर' और 'बिना किस अवरात प्रतिस्था का किया के किया के किया किया है अहा है के आवार के जात है के आवार के हैं आ शुरू में है के आवार क दायित्व के आधार पर आयोजित की जा रही है। बोलीदाता औं को अपनी बोली जमा करते हैं नीलामी बिक्की कार्यवाही में मान लेने से पहले अचल प्रतिस्कृत आसित्व हैं विवरण के बारे में स्वयं को संतुष्ट करना होगा। बोलीदाताओं को बोली लगाने से पहले किसी भी वैधानिक देनदारियों, कर के बकाया, स्टांप शुल्क, दावों आदि के बारे में स्वर ाववाण क बार म स्वयं का संवुष्ट करना होगा जालादताजा को जाला लगान संपहल किसा मा विधानक दनदाखा, कर के अवसा, स्टाय शुरूक, दोन आदि के जार म स्वयं पूछाछ करनी चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभृत लेनदार बिक्री के लिए प्रस्तावित अचल प्रतिभृत आस्ति के संबंध में या बकाया पानी-सेवा शुरूक, हस्तांतरण शुरूक बिजली बकाया, बकाया राशि जैसे किसी भी बकाया के संबंध में किसी भी अनुमति/लाइसँस, एसओसी आदि के क्रय के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। उक्त अचल प्रतिभृत आस्ति की बिक्री के संबंध में और/या नगर निगम/स्थानीय प्राधिकरण/सहकारी हाउसिंस सोसाइटी या कोई अन्य बकाया, कर, लेवी, शुरूक/स्थानांतरण शुरूक यर्वि कोई हो। सफल बोलीदाता को अचल सुरक्षित संपत्ति की खरीद के संबंध में आयकर के प्रावधानों का पालन करना होगा और लागू दरों के अनुसार अधिकारियों को कर क कार हो। ते परिवार वार्ता का जया है पूरिता स्वार्ध के अपने ने जिन्देश के ने अपने के स्वार्ध के सिता के स्वार्ध क प्रमाना करना होगा। इसके अलावा, प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और सूचना के अनुसार किसी भी अचल सुरक्षित स्पर्ति कर स्वार्ध कर कोई ज्ञान ऋणभार नहीं है। हालांकि इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले भार, नीलामी में रखी गई अचल सुरक्षित संपत्ति के शीर्षक और दावों/अधिकारों/देवताओं/अचल सुरक्षित संपि को प्रमावित करने के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। ई-नीलामी बिज्ञापन किसी भी प्रतिबद्धता या सुरक्षित लेनदार के किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नई का उनाजा करने के सब्बन जेपना स्वार्य पूछांक करना बाहिए। इन्साना विज्ञान करने किया जिसके हुए हुए हुए हुए का जिस करता है और न ही माना जाएगा। अचल सुरक्षित संपत्ति को सभी मेजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेचा जा रहा है, चाहे वह सुरक्षित लेनदार को जात हो या अज्ञात प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभृत लेनदार किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकाया/बकाया सांविधिक बकाया/करों आदि के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। बोली प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति और विशिष्टताओं के बारे में निरीक्षण और स्वयं को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी। नीलामी में रखी गई संपत्ति क
- निरीक्षण इंच्छुक बोलीदाताओं को संपत्ति विवरण के अनुसार बताइं गई जगहों पर करने की अनुमति होगी। इंच्छुक बोलीदाताओं को अपनी अग्रिम धनराशि (ईएमडी) का विवरण और दस्तावेजों को वेबपोर्टल <u>https://www.bankeauctions.com</u> पर लॉगिन आईडी औ पासवर्ड (https://www.bankeauctions.com) के साथ पंजीकृत करके यूजरआईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं) के द्वारा जमा कराए। इच्छु बोलीदाताओं जिन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड, डेटा अपलोड करने, निविदा दस्तावेज जमा कराने, आनॅलाईन बोली लगाने में प्रशिक्षण व प्रदर्शन इंत्यादि हेतु मैससे सी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, तृतीय तल, प्लॉट नं. 68, सेक्टर 44 गुड़गांव, हरियाणा पिनः 122003, ई-मेल आईडी: <u>support@bankeauctions.com,</u> हेल्पलाईन नं. 0124-4302020,21,22,23, सम्पर्क नम्बर: 7291981124, 25,26, सम्पर्क सूत्रः श्री धरणी कृष्णा संपर्क नंबर +91-9948182222 और सम्पत्ति से संबंधित पूछताछ के लिए प्राधिकृत अधिकारी: श्री जीवन कुमार, मोबाईल नं. 8882847477 ई-मेल आईडी: jeevan@alchemistarc.com पर सोमवार से शनिवार कार्यघण्टों के
- दौरान सम्पर्क कर सकते है। रुपण सम्भक्त कर सकता है। इंपूमडी एनंड्रप्णटी/आरटीजीएस (जिसकी स्पीद बोली के साथ संलग्न की जाएगी) के द्वारा दिनांक 16.12.2024 को साथ 4.30 बजे तक निम्न खाते - एक्सिस वैंव लिमिटेड, खाता संख्या **911020022947728**, खाता का नामः Alchemist-XV TRUST, आईएफएससी कोडः UTIB0000357 में देय होगी अथवा 'ALCHEMIST XV TRUST' प्राधिकृत अधिकारी आलकेमिस्ट असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, ए-270, (प्रथम एवं द्वितीय तल), डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली- 110024 के पक्ष
- ा अभाड अभ्यत् । प आडर के प्रतार प होता. सम्मन्तियों की विक्री आरक्षित मृत्य से कम पर नहीं की जाएगी। प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम बोली को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है और प्राधिकृत अधिकारी के पास कोई भी कारण बताए बिना किसी भी अथवा सभी प्रस्तावों को स्थिगत/ नीलामी स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है। सफल बोलीदाता द्वारा जमा अग्रिम धनराशि को विक्रय प्रतिफल के हिस्से के रूप में रोक लिया जायेगा तथा असफल बोलीदाताओं की अग्रिम धनराशि को नीलामी के दिनांक
- से 7 कार्यदिवसों के भीतर लौटा दिया जायेगा। अग्रिम धनराशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सफल बोलीदाता को विक्रय राशि का 25% जिसमें चकाई गई अग्रिम धनरारि भी सम्मिलित है को समायोजित करने के प्रथमत उसी दिन अधन के अपने कार्यदिवस के भीतर तथा शेष विक्रय मूल्य का 75% 15 वें दिवस को या उस से पूर्व या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उसके विवेकाधीन सहमति से लिखित में कि पई समयावृद्धि के भीतर जमा कराना होगा।
- बोलीदाता को बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न प्रपत्र में आईबीसी, 2016 की धारा 29 (ए) के तहत एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी। नियम व शतों की अधिक जानकारी के लिए वेबसाईट www.alchemistarc.com और ई-नीलामी में भाग लेने व निविदा जमा कराने से पू
- https://www.bankeauctions.com देखें।

हस्ताक्षर/- (प्राधिकृत अधिकारी

आलकेमिस्ट एसेट रिकंस्टक्शन कंपनी लिमिटेः

यूरो एशिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड

कारपोरंट कार्यालय तीसरा तत, प्लाट नं. बी—103, साज्य सिटी।, गुरुग्राम, हरियान—122001 सीआईएन नं: L51999DL1981PLC012621, ईमेलः info@euroasiaexportstd.com, फोन नं. 0124-4577733 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का सार (राशि रु. लाखों में

विवरण	30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही	30 सितंबर, 2024 को समाप्त छमाही	30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही
	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)
प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	7.44	162.98	5.21
कर और विशिष्ट मदों से पूर्व अवधि			
के लिए शुद्ध (हानि)	1.45	4.60	0.79
कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध (हानि)	1.45	4.60	0.79
कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध (हानि)	1.08	3.41	0.57
अवधि के लिए कुल समग्र आय	1.08	3.41	0.57
इक्विटी शेयर पूंजी	156.88	156.88	156.88
अर्जन प्रति शेयरः			
बेसिक	0.07	0.22	0.04
डायल्यूटेड	0.07	0.22	0.04

नोट : ऊपर सेबी (सूचीबद्ध और अन्य प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में पेश किए गये तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत रूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण रूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.euroasiaexportsltd.com पर उपलब्ध है।

> यूरो एशिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से व उन्हीं के लिए

राकेश कुमार सिंघल प्रबंध निदेशक मुकुंद मुरारी निदेशक डीआईएन: 0860627 स्थान : नई दिल्ली

विशेष परिचालन विभाग, एचडीएफसी बैंक लि. ☐ HDFC BANK भूतल, गुलाब भवन, 6, बहादुर शाह जफर मार्ग, आईटीओ, नई दिल्ली 110002 कब्जा सचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परीशिष्ट IV के अनुसार) त्रुंकि, एचडीएफसी बैंक लि. के अधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गटन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनयम, 2002 के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन, नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के प्रयोग के तहत **दिनांक** 31-अक्टूबर-2023 को एक मांग सूचना जारी की थी, जिसमें कर्जदार (ाँ) मैसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स (कर्जदार) अपने स्वत्वाधिकारी **श्री अतुल मित्तल (स्वत्वाधिकारी/गिरवीदाता/गारंटीदाता)** को कथित सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर मांग सूचना में उल्लेखित रकम **दिनांक 31.10.2023** की स्थिति के अनुसार रु. 23,31,942,76 (रुपये तेईस लाख डकतीस हजार नौ सौ बयालीस एवं पैसे छिहत्तर मात्र) तथा उस प दिनांक 01.11.2023 से आगे के व्याज तथा शुल्कों की रकम चुकता करने को कहा गया था। कर्जवारों, गारंटीदाताओं/गिरवीदाताओं द्वारा कथित रकम का भुगतान करने में असफल होने के कारण, एतदुद्वारा कर्जदारों,गार्स्टीचाताओं,गिरपीदाताओं एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि कथित अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित कथित नियमों के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत

विशेष तौर पर कर्जदारों/गारंटीदाताओं/गिरवीदाताओं तथा आम तौर पर जनसाधारण को एतदुद्वारा सतर्क किया जाता है कि इस संपत्ति संबंधित कोई सौदा न करें तथा इस संपत्ति से संबंधित कोई भी सौदा दिनाचे 31.10.2023 की स्थिति के अनुसार रु. 23,31,942.76 (रुपये तेईस लाख इकतीस हजार नी सौ बयालीस एवं पैसे छिहत्तर मात्र) तथा उस पर दिनांक 01.11.2023 से आगे के व्याज तथा शुल्कों हत्यादि की राशि, जो ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार बकाया एवं आपके द्वारा भुगतेय है, के लिए एचडीएफसी बैंक लि. के प्रभार का विषय होगा। कर्जदार का ध्यान प्रत्यामृत सम्पत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) की ओर आकर्षित किया जाता है। अचल सम्पत्ति का विवरण

अधोहस्ताक्षरी द्वारा **12 नवम्बर, 2024** को सहानरपुर, उत्तर प्रदश में यहां उल्लेखित सम्पत्ति पर कब्जा कर

	सम्पत्ति का विवरण	कब्जा की तिथि
	रियाहसी सह वाणिज्यिक सम्पत्ति नं. 8/1857, मोहल्ला वीर नगर जैन बाग, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश 247001, परिमाप 70 वर्ग यार्ड अथवा 58.52 वर्ग मीटर, जो उप-पंजीयक का कार्यालय, एसआरई में, बही नं. 1 जिल्द नं. 4612 पृष्ठ नं. 805/820 दस्तावेज नं. 1614 के तहत दिनांक 08.03.2006 को भलीभांति पंजीकृत है। चीहरी: पूर्वे: हरनाम सिंह का मकान, पश्चिम: श्री राजेश जैन का मकान, उत्तर: 10 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण: श्री सुबोध जैन का मकान।	ईश्वर दाय मित्तल तथ श्रीमती नमिता मित्त पत्नी अतुव कुमार मित्त
c	पणीः अधिनियम के नियम 6. 8 एवं 9 के अधीन ऊपर उल्लेखित सचना को बिक्री के लि	ए 30 दिनों

सचना के रूप में समझा जाए।

AXIS BANK ई-नीलामी विक्रय सूचना

ज्ञात ऋणभार (यदि कोई)

खुदरा ऋणप्रदायक एवं भुगतान समूह (स्थानीय कार्यालय / शाखा) : एक्सिस भवन, टॉवर-२, द्वितीय तल, 1-14, सेक्टर-128, नोएडा एक्सप्रेसवे, जेपी ग्रीन्स विद्यादाडन, बोएडा-201301, यू.पी. एविसस बैंक लि., तृतीय तल, वीवाएलेक्स एनपीसी-1, टीटीसी इंडिट्स्यल एरिया, मुगलसन रोड, एरोली, नवी मुंबई- 400 708, पंजीकृत कार्यालवः "विश्वल", तृतीय तल, समर्थेखर मंदिर के सम्मुख, ले

तेणुति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(ø) के प्रावधान के साध्य पठित वित्तीय परिसंपत्तियाँ प्रतिमुद्रिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनयम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ

ादद्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में ऋणकर्ता(ओं) और गारंटर(रों) को सचित किया जाता है कि प्रतिभ् होता जेनासां क्यां का त्या नियम आप है जिन्ह आया जात गोर्टिया, जो सूचिया जाता है जिन्ह आधार है जाता के पास क्यां दाता के पास क्यांककृत / प्रभारित निम्न विवरणित अवल संपत्ति, जिसका भौतिक अधिग्रहण प्रतिमृत ऋणवाद विकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है, उसका विक्रय 13—11—2024 को **"जैसी है जाहाँ है", "जैसी है जो है** क आविष्ठात आवशार हुए कर लिया गया है, उसका वाक्य 13-11-12-22 के जा पता व जात है जो है और 'वर्डी को कुछ जी हैं' आवार पर किया जायेगा। यह विक्रय, ऋण से PHR036103329985 के अंतर्गत स्वर्गीय जागेश विपादी विषक उत्तराविकारियों के माध्यम से- श्रीमती राजमती विपादी तथा श्री रजनीश की ओर से प्रतिमृत ऋणवाता को देय-जुनतेय रू 31,60,102/- (रुपये इकतीस लाख पचार हजार एक सी दो मात्र) 13-11-2024 के अनुसार की एक पांति और इस पांति पर लागू मावी ब्याज एवं लागतों की वसूली करने के लिये किया जायेगा। अनिवार्य विवरणों के लिये कृपया संलग्नित नीलामी अनुसूची का संवर्ष ग्रहण करें :-

आरक्षित मूल्य (रु. में)	७. 40,62,960∕− (रुपये चालीस लाख बासठ हजार नौ सौ साठ मात्र)						
धरोहर राशि जमा (रु. में)	७. 4,08,296/— (रुपये चार लाख छह हजार दो सौ छियानबे मात्र) डीडी / पीओ के माध्यम से 'एक्सिस बैंक लिमिटेड' के पक्ष में दिल्ली में भुगतानयोग्य						
बोली वृद्धिशील राशि	रु. 10,000 / – (रुपये दस हजार मात्र)						
धराज के साथ बोलियाँ / निविदा जमा करने की अंतिम तिथि, समय एवं स्थान	27-नवंबर-2024 को अधिकतम 05.00 बजे तक एक्सिस भवन, द्वितीय तल, -14, सेक्टर-128, नोएडा एक्सप्रेसचे, जेपी ग्रीन्स विशटाउन, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश में, जो श्री मुकेश सिंह को संबोधित / सम्प्रेषित हो						
सार्वजनिक ई—नीलामी की तिथि, समय एवं स्थान	29—नवंबर—2024 को 11.00 बजे और 12.00 बजे के मध्य, 5 मिनटों प्रत्येक के असीमित विस्तारों के साथ, वेब पोर्टल						
https://www.bankeauctions.com पर। ई—नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणा इत्यादि से समाविष्ट ई—नीलामी । प्रलेख ऊपर वर्णितानुसार सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर उपलब्ब हैं।							

अनुसुषी — संपत्ति का विवरण इवेलिंग यूनिट जो छलाधिकारों के बिना भू तल पर स्थित है मापन 910 वर्ग फुट (अधि क्षेत्रफल) भूखण्ड सं. 8ए, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के रूप में विदित आवाशीय कॉलोनी, सेक्टर 30–33, फरीदाबाद में स्थित, मापन 160 वर्ग गज, रेक्ट. नं. 0 किला नं. 21 मिन, का माग माम एत्सावपुर, तहस्रकील एवं जनपर करीदाबाद में स्थित तथा निन्न वर्णित स्थल योजन के अनुसार परिसीमित हैं:— उत्तर– स्थल योजना के अनुसार, पूर्व– स्थल योजना के अनुसार, परिचम– स्थल योजन

https://www.bankeauctions.com पर जीनलाइन किया जायेगा। किसी अन्य सहायता के लिये इच्छुक बोलीदातागण, श्री मुकेश सिंह बैंक के प्राध्यकृत अधिकारी को मोबाइल नं 91.9873015430 पर 10 बजे से लेकर 04:00 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।

हस्ताः / — प्राधिकृत अधिकार कते एक्सिस बैंक लिमिन्टे दिनाँक : 14-11-2024 स्थान : नोएडा



म्थानः नर्ड दिल्लीः दिनांकः 14.11.2024

पंजीकृत कार्यालयः

आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110019 फोनः 011-41732000 वेबसाइटः www.ifciltd.com, CIN : L74899DL1993GOI053677

30 सितंबर, 2024 को समाप्त अवधि के लिए गैर लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडअलोन और समेकित) का सार

(करोड़ रुपए में)

		स्टैंडअलोन परिणाम					समेकित परिणाम						
क्र. सं.	विवरण		30 / 06 / 24 को समाप्त तिमाही (गैर लेखापरीक्षित)	30 / 09 / 23 को समाप्त तिमाही (गैर लेखापरीक्षित)	30 / 09 / 24 को समाप्त अवधि (गैर लेखापरीक्षित)			30 / 09 / 24 को समाप्त तिमाही (गैर लेखापरीक्षित)				30 / 09 / 23 को समाप्त अवधि (गैर लेखापरीक्षित)	
1	परिचालनों से कुल आय	300.62	123.19	166.60	423.81	243.98	895.94	785.80	405.12	612.03	1,190.92	936.40	2,114.82
2	अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि) (कर, अपवादात्मक और / या असाधारण मदों से पूर्व)	0.63	(36.02)	300.51	(35.40)	130.54	483.80	276.68	40.40	519.62	317.08	392.04	747.79
3	कर—पूर्व अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि) (अपवादात्मक और / या असाधारण मदों के पश्चात्)	0.63	(36.02)	300.51	(35.40)	130.54	483.80	274.75	40.40	519.62	315.15	391.54	750.88
4	कर—पश्चात् अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि) (अपवादात्मक और / या असाधारण मदों के पश्चात्)	(21.56)	(148.24)	83.77	(169.80)	(77.20)	128.25	184.89	(87.97)	172.76	96.92	43.41	241.05
5	अवधि के लिए कुल समग्र आय (जिसमें अवधि के लिए (कर—पश्चात्) लाभ / (हानि) तथा अन्य समग्र आय (कर—पश्चात्) शामिल है,	(15.67)	(166.84)	74.95	(182.51)	(84.54)	88.10	2,363.83	333.35	383.57	2,697.18	221.74	575.38
6	इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक का अंकित मूल्य 10 / —रुपए)	2,613.59	2,613.59	2,489.61	2,613.59	2,489.61	2,489.61	2,613.59	2,613.59	2,489.61	2,613.59	2,489.61	2,489.61
7	अन्य इक्विटी (31 मार्च को लेखा परीक्षित तुलन—पत्र के अनुसार)	-	-	-	-	-	(1,275.41)	-	-	-	-	-	2,044.63
8	प्रति शेयर अर्जन (अन्तरिम अवधियों के लिए गैर—वार्षिकीकृत)ः												
ı	क) बेसिक (₹)	(0.08)	(0.57)	0.34	(0.65)	(0.31)	0.52	0.32	(0.41)	0.39	(0.10)	(0.18)	0.42
1	(ख) डायल्यूटिड (₹)	(0.08)	(0.57)	0.34	(0.65)	(0.31)	0.52	0.32	(0.41)	0.39	(0.10)	(0.18)	0.42

टिप्पणियांः


स्थान: नर्ड दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी

दिनांकः 13 नवम्बर 2024

- 1. उपरोक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखा-परीक्षा समिति द्वारा की गई तथा इन्हें निदेशक मंडल द्वारा 13 नवंबर, 2024 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया। इन परिणामों की समीक्षा मेसर्स एस. मान एंड कंपनी, सनदी लेखापाल द्वारा की गई है।
- 2. उपरोक्त विवरण भारतीय प्रतिभृति और विनियम बोर्ड (सुचीबद्धता और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में प्रस्तुत किये गए तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटो (www.nseindia.com और www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट www.ifciltd.com पर उपलब्ध है।
- 3. भारतीय प्रतिभृति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 52(4) में निर्दिष्ट मदों के लिए, स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइटों (www.nseindia.com और www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट www.ifciltd.com पर उपलब्ध गए हैं।





बोर्ड के आदेशानुसार हस्ता / -(राहुल भावे) उप प्रबन्ध निदेशक

1948 से शष्ट्र के विकास में